

Baid Leasing and Finance Co. Ltd.

Regd. Office: "Baid House", 2nd Floor, 1-Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-06 Ph:9214018855 E-mail: <a href="mailto:baidfinance@baidgroup.in">baidfinance@baidgroup.in</a> Website: www.balfc.com CIN: L65910RJ1991PLC006391

Date: August 31, 2020

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai-400001 (Maharashtra)

**Sub.:** Newspaper Advertisement – Public Notice for the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Wednesday, September 30, 2020.

Ref: Scrip Id.: 511724

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 we are enclosing herewith the Newspaper Advertisement of Public Notice for the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, September 30,2020 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") published in newspapers Nafa Nuksan and Financial Express on August 30, 2020. The same has been made available on the Company website www.balfc.com

Thanking you, Yours Sincerely,

FOR BAID LEASING AND FINANCE CO. LTD.

For Baid Leasing And Finance Co. Ltd

No

Company Secretary

CS NAMRATA SAJNANI (COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER) FCS-10030

Encl: A/a

**FE SUNDAY** 

#### HELPAGE FINLEASE LIMITED

CIN: L51909DL1982PLC014434

Regd. Off.- S-191/c, 3rd floor Manak Complex, School Block, Shakarpur Delhi -110092 Email id: info@helpagefinlease.com Website: www.helpagefinlease.com Contact No.- 01122481711

#### NOTICE

- Shareholders may note that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over Video Conference("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility on Friday. 25th September, 2020 at 3:00 P.M. IST in compliance with General Circular No.14/ 2020,17/2020, 20/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2019-20 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).
- Manner of registering/updating email addresses:
  - (i) Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.
  - Shareholders holding share(s) in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (BEETAL Financial & Computer Services Private Limited) via a beetairta@gmail.com.
- The notice of the 38th AGM and Annual Report for financial year 2019-20 will also be made available on the Company's website at www.helpagefinlease.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.
- Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice
- The 38th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course

For HELPAGE FINLEASE LIMITED

Place: New Delhi Date: 28.08.2020

Sdi-Sidharth Goyal Managing Director

#### Cityon Systems (India) Ltd.

Regd. Off .: - 215, Delhi Chambers, Delhi Gate, Delhi - 110002, CIN: L72900DL2004PLC126096

Phone No.: +91-11-41563395 Tel Fax: +91-11-43667149 E-mail: info@cityonsystems.in, cityonsystems1@rediffmail.com, Website: www.cityonsystems.in

NOTICE TO THE MEMBERS OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s).

- 1. NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular Numbers 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circularis") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.
- The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2020 including the financial statements for the year ended 31" March, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.cityonsystems.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com/www.bsesme.com.
- 3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Depository can obtain Notice of the AGM, Annual Report and /or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility, by sending scanned copy of the following documents by email to info@cityonsystems.in or cityonsystems1@rediffmail.com:
  - a. a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
  - b. self attested scanned copy of the PAN Card; and
  - c. self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company.
- 4. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing or any other means ("Flortronic Bank Mandate")

#### BAID LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: "Baid House" lind Floor, 1, Tara Nagar, Aymer Road, Jaipur-06 • Ph.: 9214018855 E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.balfc.com, CIN: L65910RJ1991PLC006391

## INFORMATION REGARDING TWENTY NINETH (29th) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE AND OTHER INFORMATION

- 1. The 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Wednesday, September 30, 2020 at 3:00 P.M. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") (collectively referred to as "relevant circulars", to transact the business set out in Notice calling the AGM. Members will be able to attend AGM through VC/OVAM. Members participating through VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
- 2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2019-20, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company! Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.balfc.com, website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services of India Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. No physical copies will be dispatched to the
- 3. Manner of Registering/updating email addresses:
  - a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company or MCS Share Transfer Agent Ltd., Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self attested copy of PAN card at cs@baidgroup.in or to RTA at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com.
  - b) Members holding share in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
- 4. Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting)

The manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.balfc.com

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA to its email address helpdeskdelhi@mcsregistrars.com.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the relevant circulars.

For Baid Leasing and Finance Co. Ltd Sd/- Panna Lal Baid

Place: Jaipur Date: 29th August, 2020 Chairman & Managing Director (DIN: 00009897)

### DELTRON LIMITED

(Under Voluntary Liquidation) (CIN: L32109DL1982PLC013838) Regd.Office.: C-120, Naraina Industrial Area, New Delhi DL-110028

#### NOTICE TO CONTRIBUTORIES/SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that First Annual Meeting of Contributories/ shareholders of Deltron Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, 3rd September, 2020, at 3:30 P.M. through Video Conferencing (VC) considering COVID -2019 outbreak as per Rule 37(2)(a) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017.

All contributories /shareholders are requested to kindly update their particulars with RTA or Depository Participant (DP) as per details given below:

1. In case the shares of the Company are held in physical form, such members/contributories shall submit scanned copy mentioning its email address, Name, folio number and complete address along with self-attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card, Bank details with cancelled cheque leaf/attested bank passbook showing the name of account holder and any document for proof of

के चलते होटलों की बुकिंग काफी मात्रा में निरस्त हुई है। पर्यटकों के नहीं तरे कारोबारी क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों जर बनाए हुए है। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर केज मुहैया करवाए जा रहे है। इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ो पुख्ता इंतजाम किए गए है'। *-संदीप श्रीवास्तव, सहायक पर्यटन अधिकारी* 

# /इंटरनेशनल-----



# ही भरपाई ऋण के रसएसएफ से संभव

हना है कि केंद्र ने हालांकि को 2.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने का विकल्प है, लेकिन संविधान का र्द्र 293 (3) राज्य सरकारों **७ अंकुश लगाता है। रिपोर्ट** ज्ल्पों पर कहा गया है कि द्वारा जारी किये जाने वाले ों को खरीदकर उन्हें नकदी कि केंद्रीय बैंक सभी राज्य भी है। हालांकि, इसके साथ हा गया है कि मौजूदा

है। इस सुविधा के तहत और राज्य दोनों रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं। हालांकि, डब्ल्यूएमए का 90 दिन की अवधि में परिसमापन जरूरी है, इसलिए यह लघु अवधि का उपाय ही है। एसबीआई इकनॉमिस्ट ने कहा कि एनएसएसएफ तीसरा विकल्प है। यह एक विशेष इकाई (एसपीवी) शुरू करने की तरह है जिसके जरिये सरकारों को वित्त का स्वायत्त स्रोत उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्यों को एक बार फिर एनएसएसएफ से रियायती दर पर नकदी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि खुले बाजार पर उनकी निर्भरता कम की जा सके।

यों के संभव

बेहतर

रह के

करण

ते दे।

ार पर

है कि

उपाय

मिल

(टिंग्स

विड-

ो जब

दौड़ाने

**!का**ऊ

ा और

उत्पाद

है कि

नकती

0 - 21

ारावट

र बाद

ालाना

है कि

र्इ है।

ानसून

ऱ्सा में

बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855 E. : baidfinance@baidgroup.in • W. : www.balfc.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

#### वीडियों कान्फ्रेंस द्वारा अयोजित उन्नतीसवीं ( 29वीं ) वार्षिक साधारण सभा एवं अन्य सूचना

- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक साधारण सभा ( एजीएम ) बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को दोपहर 03:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ( ओएवीएम ) से आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 ( अधिनियम ) और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम 2015 के साथ पढ़ा जाये। यह प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफोयर्स के द्वारा जारी किये गए जर्नल परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रेल, 2020, जर्नल परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रेल, 2020 एवं जर्नल परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, ( एमसीए परिपन्न ) एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CR/P/2020/79, दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में है। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग ले सकोंगे। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- उक्त परिपत्रों की अनुपालना के अंतर्गत, कंपनी की एजीएम का नोटिस, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंकेक्षित विलीय परिणामों के साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज कंपनी के सदस्यों को उनके ई-मेल पते पर भेजे जाएंगें जो कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां पंजीकृत हैं। उक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.balfc.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com व सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ( सीडीएसएल ) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे । सदस्यों को इनकी भौतिक प्रति नहीं भेजी जायेगी ।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया:

(ए) भौतिक रूप से कंपनी शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार शेयर व ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमसीएस शेयर एवं ट्रांसफर एजेंट लि. या कंपनी के पास ई-मेल पते पंजीकृत/ अपडेट नहीं कराए हैं, उनके निवेदन है कि वह ई-मेल पते को पंजीकृत/ अपडेट कराने के लिए फोलियों नंबर की जानकारी व पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति को cs@baidgroup.in पर कंपनी को या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर आरटीए को

( बी ) डीमेट रूप में कंपनी के शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराए हैं, उनसे निवेदन है कि वह उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करा लें जहां उनके डीमेट खाते हैं।

ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने की प्रक्रिया : कंपनी की एजीएम के नोटिस में शामिल व्यवसायों पर वोट डालने के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग माध्यम के जरिए उनका वोट डालने का

डीमेट रूप व भौतिक रूप में कंपनी के शेयर रखने वाले सदस्यों के साथ ही ई-मेल पते पंजीकत नहीं कराने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग में भाग लेने या ई-बोटिंग सिस्टम के जरिए बांट डालने से संबंधित प्रक्रिया का विवरण कंपनी की एजीएम के नोटिस में दिया गया है। यह विवरण कंपनी की वेबसाइट www.balfc.com पर भी उपलब्ध है।

इस संबंध में किसी प्रकार का संचार /शिकायत के लिए सदस्य कंपनी के आरटीए को ई-मेल पते helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर लिख सकते हैं।

उक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी व फायदे के लिए दी जा रही है जो आवश्यक परिपत्रों की अनुपालना में भी है।

बैद लिजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी के लिए हस्ता./

स्थान : जयपर दिनांक : 29 अगस्त, 2020

पना लाल बैद अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (DIN-00009897)

इटली समेत विभिन्न देशों से पर्यटक आते है। इस वर्ष चाइना के पर्यटक भी सूची में थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब खत्म हो गया है।

पाली	:	7742427942
सुमेरपुर	3	9928608845
भरतपुर	:	9667365632
केकड़ी	- 3	9214000265



### बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018844 E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.balfc.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार भारतीय लेखा स्टैण्डर्ड ( आईएनडी-एएस ) के अनुपालन में तैयार ( शेयर डाटा को छोड़कर रु. लाखों में )

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2020 (गैर अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2019 ( गैर अंकेशित )	समाप्त तिमाही 31.03.2020 ( अंकेक्षित )	समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2020 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय कर के बाद शुद्ध लाभ/( हानि )	1259.68	1642.51	1349.63	6258.59
( कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले ) कर के बाद शुद्ध लाभ /( हानि )	218.02	302.77	191.27	1035.96
( कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से बाद ) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ /( हानि )	218.02	302.77	191.27	1035.96
( असाधारण और ⁄या असाधारण वस्तुएं ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय	163.15	214.60	128.66	760.74
( कर के बाद ) के लिए लाभ/हानि	165.36	214.60	120.14	761.14
समता अंश पूंजी रिज़र्व ( पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	1200.68	1010.00	1200.68	1200.68
पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त ) आय प्रति शेयर ( रु. 10 /- प्रति का ) ( संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए )		2	2/	11801.76
1 मूल 2 तरल	1.36	2.12	1.07	6.34

टिप्पणी : ( 1 ) 30 जून , 2020 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकक्षित विलीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है जिसकी 29 अगस्त, 2020 आयोजित संबंधित मीटिंग में अंकेक्षण समिति ने उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की है एवं निदेशक मण्डल ने उपरोक्त परिणामों को मंजूरी दे दी है। साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा और सेबी ( सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया । समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित विलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाग्ये स्टॉक एक्सचेंज की 35 के तहत स्टार्क एक्स आ का जा अन्य का पात्रिक के विकास के किस के किस के किस के किस के मेर अर्केहित स्टैण्डर वेबसाईट www.bseindia.com तबा कम्पनी की वेबसाईट www.balft.com पर उत्तरव्य हैं ( 2 ) कंपनी के गैर अर्केहित स्टैण्डर परिणाम भारतीय लेखा मानकों ( आईएनडी-एएस )के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 133 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

( अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ) DIN:- 00009897

B

दिनांक : 29 अगस्त, 2020 स्थान : जयपुर

#### राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :एमपी-825, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013, फोन: 91-141-2331771-2; फैक्स: 91-141-2330810, E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए स्टैण्डएलॉन अंकेक्षित विलीय परिणामों के विवरणों का सार

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक वर्ष	
		31.03.2020 ( अंकेक्षित )	31.12.2019 ( गैर अंकेक्षित )	31.03.2019 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)
	ख ) अन्य आय	64.64	9.22	28.05	127.07	102.02
	कुल आय	515.85	343.79	1,545.27	2,120.53	5,461.14
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/( हानि ) ( कर,	70110640000	- 100 CMT 400 F	The second of	DANKYE SKILLER	100000000000000000000000000000000000000
	असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले )	(144.19)	(112.95)	(174.96)	(509.95)	(377.88)
3.	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/( हानि )	Myndraecocci.	55-03000-0-0-0	A MESSAGE SERVICE	Management of the state of the	(1050.0000000000
	( असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से बाद )	(144.19)	(112.95)	(174.96)	(509.95)	(377.88)
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/( हानि )	No. 12		X	127	155
	( असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से बाद )	(100.31)	(68.06)	(122.77)	(351.38)	(258.13)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय ( अवधि के लिए व्यापक लाभ/हानि )( कर के					
	बाद ) एवं अन्य व्यापक आय ( कर के बाद ),	(79.94)	(72.14)	(104.22)	(324.31)	(289.60)
6.	समता अंग पंजी	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16
7.	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को	000.10	000.10	000,10	000.10	000.10
an	छोडकर अन्य डिक्वरी	9	2	- 52	1,198.48	1,595.75
8.	आय प्रति शेयर ( रु. 10/- प्रति का )				100000000000000000000000000000000000000	1,000
	( संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए )					
	1. मुल	(2.98)	(2.02)	(3.65)	(10.45)	(7.68)
	2. तरल	(2.98)	(2.02)	(3.65)	(10.45)	(7.68)

- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 28 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड में लिया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने पूर्वोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- उपरोक्त अंकेक्षित स्टॅंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो संबंधित नियमों और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) के विनियमन 33 के संदर्भ में विनियम 2015 के साथ पढ़े गए हैं ।
- गैर तात्कालिन परिसम्पत्ति ऋण में रु. 56.31 लाख रुपये कॉर्पोरेट बॉडी मैसर्स अंकुर ड्रग्स एवं फार्मा लिमिटेड से है जो परिसमापन के अधीन हैं। प्रबंधन ऐसे ऋणों के खिलाफ वसूली की संभावना का अनुमान लगाने में असमर्थ है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इस मामले के संबंध में अपनी रिपोर्ट को योग्य बनाया है।
  - प्रबंधन का पक्ष: प्रबंधन की राय में, उपरोक्त कम्पनी को दिया गया ऋण अच्छा और वसूली योग्य है क्योंकि कंपनी ने अधिकारिक परिसमापक के साथ अपना दावा दायर किया है।
- सृक्ष्म उद्यमों और खोटे उद्यमों के लिए देय व्यापार की अतिदेय राशि पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 पर देय व्याज । अनुमान नहीं लगाया गया है और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है ।
- कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने समय-समय पर सरकार द्वारा लगाए गए लॉन डाउन प्रतिबंध और अन्य आपातकालीन उपायों के कारण कंपनी के नियमित व्यवसाय संचालन को बाधित कर दिया था । व्यापार परिचालन ने लॉकडाउन के एक सीमित पैमाने पर छट की सिफारिश की है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2020 तक परिसंपत्तियाँ और देनदारियों के वहन मूल्य पर कोविड-19 महामारी से उत्पन होने वाले इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक ज्ञात घटनाओं के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा है। हालांकि कंपनी पर कोविड-19 महामारी के भविष्य के प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान अनिश्चितता मौजूद हैं और, तद्नुसार, भविष् में वास्तविक प्रभाव वर्तमान में अनुमानित अनुमानों से अलग हो सकता है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और विलीय परिणामों पर परिणामी प्रभाव के लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी कराना जारी रखेगी।
- तिमाही की शुरूआत और अंत में कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं थी। तिमाही के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।
- उपरोक्त विवरण सेबी के विनियमन 33 ( सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियमों, 2015 के तहत स्टाँक एक्सचेंज के साथ दावर तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत परिणामों का सार है।तिमाही औ वार्षिक वर्ष के लेखा परीक्षित विलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की बेबसाईट (www.bajoriagroup.in) पर भी उपलब्ध है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/ पुनः स्थापित किया गया है 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़ें और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई तिमाही, पूरे विलीय वर्ष के संबंध में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं और संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक की तारीख के आंकड़ों को प्रकाशित किया गया है जो कि सीमित समीक्षा के अधीन है। बोर्ड के आदेशानुसार

वास्ते राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड

हस्ता./

अविनाश बाजोरिया, ( प्रबन्ध निदेशक ) DIN: 01402573





दिनांक: 28.08.2020

स्थान : जयपुर